



31908 - एक महिला किसी कब्रिस्तान के पास से गुज़री तो क्या वह सलाम करेगी ?

प्रश्न

हम इस बात को जानते हैं कि औरत के लिए कब्रिस्तान की ज़ियारत करना वर्जित है, किंतु हम उस औरत के बारे में क्या कहेंगे जो कब्रिस्तान की चहारदीवारी से गुज़री, जबकि वह अपने रास्ते में थी, और उसने कब्रों को देखा तो क्या वह वर्णित ज़िक्र (दुआ) को पढ़ेगी या उस से बाज़ रहेगी या वह क्या करेगी ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

उसके लिए वर्णित दुआ (अस्सलामो अलैकुम अह्लुद्दियारे मिनल-मोमिनीन वल-मुस्लिमीन, व-इन्ना इन्-शा-अल्लाहो बिकुम लाहिकून, नस्-अलुल्लाहा लना व-लकुमुल आफियह) पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, और उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उसने कब्रों की ज़ियारत का इरादा नहीं किया था और न ही वह कब्रिस्तान के अंदर गई, बल्कि वह बिना इरादे के उसके पास से गुज़री है।